

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 540]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 25 नवम्बर 2014—अग्रहायण 4, शक 1936

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश

शुद्धि-पत्र

नगरपालिक निगम सतना के वार्ड नं. 33 (सरदार भगत सिंह वार्ड) का परिसीमन मध्यप्रदेश राजपत्र के भाग-2 में दिनांक 20 जून 2014 के पृष्ठ क्रमांक 2430 पर त्रुटिपूर्ण प्रकाशन हो गया है उक्त के स्थान पर अंकित परिसीमा शुद्ध निम्नानुसार पढ़ी जावे:—

उत्तर—धवारी स्टेडियम के दक्षिणी मार्ग एवं चांदमारी रोड के केन्द्र बिन्दु से धवारी गली नं. 5 एवं धवारी स्टेडियम के दक्षिणी मार्ग के केन्द्र बिन्दु तक.

पूर्व—धवारी गली नं. 5 के केन्द्र बिन्दु से धवारी गली नं. 5 में चलते हुये आनन्दी प्रसाद विश्वकर्मा के मकान के दक्षिणी में स्थित मार्ग के धवारी गली नं. 5 में मिलान के बिन्दु तक.

दक्षिण—धवारी गली नं. 5 के केन्द्र बिन्दु से आनन्दी प्रसाद विश्वकर्मा के मकान के दक्षिण में स्थित मार्ग से पश्चिमी दिशा में जाते हुये चांदमारी मार्ग के केन्द्र बिन्दु तक.

पश्चिमी—चांदमारी मार्ग के केन्द्र बिन्दु से उत्तर दिशा में चांदमारी मार्ग पर चलते हुये स्टेडियम के दक्षिणी मार्ग एवं चांदमारी के मिलान बिन्दु तक.

संतोष मिश्रा, कलेक्टर.